



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 393 राँची, सोमवार,

13 मई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 मई, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2019 का०- 3615-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक- 80 दिनांक- 06.05.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, लोक सभा निर्वाचन, 2019 के लिये पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 2621 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत दिनांक 12.05.2019 के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2019 का०- 3616-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक- 79 दिनांक 06.05.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, लोक सभा निर्वाचन, 2019 के लिये सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 286 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत दिनांक 12.05.2019 के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2019 का०-3617 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक- 245 दिनांक 06.05.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, लोक सभा निर्वाचन, 2019 के लिये सेक्टर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 10 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत दिनांक 10.05.2019 से 12.05.2019 तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2019 का०- 3618 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक- 98 दिनांक 04.05.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, लोक सभा निर्वाचन, 2019 के लिये सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त 114, जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त 09 तथा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त 02 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव।
